

महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल
बी एस एन एल कॉम्प्लेक्स, प्रशासनिक भवन
चौथी मंजिल, ए विंग, स्टाफ अनुभाग, जुहू रोड, सांताक्रुज (प.)
मुंबई- ५४ टेलीफोन नं. ०२२-४९७८०१४२

Maharashtra Telecom Circle,
BSNL Complex, Administrative Building,
4th Floor, 'A' Wing, Staff Section, Juhu Road,
Santacruz (W) Mumbai- 54.
Tel No 022 49780142



भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

E-File No MHCO-STFb/12(11)/3/2021-O/o GM HR-Admin/34 Dated at Mumbai, the 31/07/2021

OFFICE ORDER

Sub:- Tenure Transfer and Posting of AGMs in Telecom Cadre in MH Circle- Regarding.

With the approval of the competent authority and in supersession of the Annex-C & Annex-D of this office order E-File No. MHCO-STFb/12(11)/2/2021-O/o GM HR-Admin/87 Dated at Mumbai 22/05/2021, the following AGM is hereby transferred and posted to the BA/Units shown against his name as detailed below:-

Sr No	PERNER	Name	Present Posting	Proposed transfer	Remark
1	99101501	A.D. Badhe	WARDHA	GADCHIROLI	At Company Cost

It is requested to relieve the officers who is/are under transfer latest by 09/08/2021 ~~2021~~, failing which these officers will be relieved directly by Circle Office, Mumbai through ERP and disciplinary action shall be taken against the responsible officers including BA/SSA heads for not obeying of orders of higher office.

The leave, if any, requested by the officer under transfer should not be allowed/sanctioned by SSA/Unit head, without the approval of Circle Office, Mumbai.

Officers who are under transfer in the interest of service, are eligible for availing joining time, TA/DA, etc. as per the extents of rule.

The concerned officers are required to clear the ERP PRD inbox /Universal list in ESS/E-Office Inbox as applicable for the items prior to relieving.

The executive posted out of tenure station shall be relieved only on completion of their tenure period excluding leave as per the extent rule.

The terms and conditions as laid down in BSNL CO order No. 412-10/2009-Pers.I dated 9th May 2012 holds good for those AGMs/SDEs under transfer from All India Soft tenure and vice versa.

Joining and Relieving entry may be made in ERP/HRMS/Service Book.

Necessary charge report may be sent to all concerned.


(B.S.Laswante)


Deputy General Manager(Legal)

पंजीकृत कार्यालय : भारतसंचारभवन, हरिश्चंद्रमाथुरलेन, जनपथ, नई दिल्ली- 110011 CIN No:
U74899DL2000GOI107739

Regd. Office: Bharat Sanchar Bhavan, Harish Chandra Mathur Lane, Janpath, New Delhi 110 001 Website:
www.bsnl.co.in

Copy to:-

1. BA Head Chandrapur/DGM(OP) Gadchiroli/AGM(OP) Wardha.
2. GM(Vig) MH Circle.
3. Concerned officer through SSA
4. CS AIGETOA/ SNEA/SCST EWA
5. AGM(ESTT)/AGM(DC)/AGM(Rectt) % CGMT,Mumbai
6. AO(Claim/Salary) % CGMT,Mumbai
7. Guard file.


(S.V. Khadgi) 3/9/07/2021

Assistant Director (Staff-B)